



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 312]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 2016/श्रावण 11, 1938

No. 312]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2016/SRAVANA 11, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड)

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2016

संख्या ए-12011/2/2015.—स्था.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 (1985 का 2) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा संख्या ए-12011/1/2005—स्था. दिनांक 25/10/2006 के द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों, 2006 के क्रम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, मुख्य क्षेत्रीय नियोजक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के पद हेतु भर्ती नियमों में निम्नलिखित संशोधन करता है:

1. लघु शीर्ष और प्रारंभ

(i) इन नियमों को राष्ट्रीय “राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड भर्ती और प्रोन्नति (संशोधित) नियम, 2015” कहा जा सकता है।

(ii) शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से ये संशोधन प्रवृत्त माने जाएंगे।

2. अधिसूचना संख्या ए-12011/1/2005—स्था दिनांक 25/10/2006 में खंड 14.2 के बाद, मुख्य क्षेत्रीय नियोजक के पद के संबंध में दी गई तालिका को निम्नलिखित तालिका से प्रतिस्थापित किया जाता है—

मुख्य क्षेत्रीय नियोजक

1.	पद का नाम	मुख्य क्षेत्रीय नियोजक
2.	पदों की संख्या	एक
3.	वर्गीकरण	ग्रुप ‘ए’
4.	वेतनमान	रु.37,400-67,000 पीबी 4 + ग्रेड पे रु. 8900
5.	चयनित पद अथवा गैर चयनित पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ	लागू नहीं
8.	सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा एवं शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नत आवेदकों पर लागू होगी अथवा नहीं	लागू नहीं

9.	परिवीक्षा अवधि, कोई हो तो	लागू नहीं
10.	भर्ती की विधि (पद्धति): सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या समावेशन के आधार पर तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा रिक्तियों को भरे जाने का प्रतिशत	सम्मिश्रित पद्धति: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/ पदोन्नति
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेशन जिस ग्रेड से किया जाना है:	<p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या अर्धसरकारी या स्वायत्त या संवैधानिक संगठनों के अधिकारी</p> <p>(अ)(i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण करते हों या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में रु. 37,400-67,000 के पे बैंड तथा रु.8700 ग्रेड पे पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर समर्पित ग्रेड में 2 वर्ष की सेवा या</p> <p>(iii) मूल संवर्ग या विभाग में पे बैंड रु. 15,600-39,100 तथा रु.7600 ग्रेड पे पर नियुक्ति के पश्चात् समर्पित ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा; तथा</p> <p>(ब) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ, यथा:</p> <p>अनिवार्य:</p> <p>(i) बी.आर्क./ बी.ई. (सिविल)/ नियोजन में स्नातक/ एम.ए. (भूगोल) तथा शहरी/ क्षेत्रीय नियोजन में स्नातकोत्तर</p> <p>(ii) स्थानीय निकाय अथवा सरकारी/सरकारी उपक्रम या मान्यता प्राप्त संस्थान में नगर तथा क्षेत्रीय योजना में 15 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 5 वर्ष नगर/क्षेत्र/नगर एवं ग्राम योजना तैयार करने तथा उसके कार्यान्वयन एवं अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन एवं निगरानी का अनुभव हो।</p> <p>अवधि:</p> <p>प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष होगी जिसे वर्ष दर वर्ष कार्य मूल्यांकन के आधार पर दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।</p> <p>पदोन्नति:</p> <p>संयुक्त निदेशक (तकनीकी) ग्रेड पे रु.7600 के साथ रु.15,600-39,100 के वेतन बैंड में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् प्रदान किए गए ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा</p> <p>नोट 1. संयुक्त निदेशक (तकनीकी) के प्रदायक ग्रेड का कोई विभागीय उम्मीदवार</p>

		<p>जिसने पे बैंड रु.15,600-39,100 तथा ग्रेड पे रु.7600 में 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो वो भी इस पद के लिए पात्रता रखता है तथा अगर ऐसे किसी उम्मीदवार का चयन होता है तो वह चयन पदोन्नति द्वारा माना जाएगा।</p> <p>नोट 2. प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस नियुक्ति से पूर्व केन्द्र सरकार के उसी विभाग या किसी अन्य कार्यालय या विभाग में किसी अन्य पूर्व काडर पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सहित 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।</p> <p>नोट 3. प्रतिनियुक्ति पर भर्ती हेतु आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की आखिरी तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
12.	अगर विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है?	कार्मिक समूह द्वारा चयन तथा बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात् नियुक्ति। कार्मिक समूह की संरचना बोर्ड की अधिसूचना सं.के-14011/13/85-NCRPB, दिनांक 8/7/1985 के अनुरूप होगी।
13.	भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की परिस्थितियाँ	लागू नहीं

बी. के. त्रिपाठी, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./195 (125)]

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD)

New Delhi, the 27th July, 2016

No. A-12011/2/2015-Estt.— In exercise of the powers conferred by section 37 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985), and in continuation of the National Capital Region Planning Board Recruitment & Promotion Rules, 2006, published vide No. A-12011/1/2005-Estt. dated 25th October, 2006, the NCRPB hereby makes the following amendments in the Recruitment Rules for the post of Chief Regional Planner, National Capital Regional Planning Board namely:-

1. Short title and commencement –

(i) These regulations may be called the "National Capital Region Planning Board Recruitment & Promotion (Amendment) Rules, 2015".

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notification No. A-12011/1/2005-Estt. dated 25th October, 2006, the table in respect of the post of Chief Regional Planner (CRP) given after the clause 14.2 of the Notification, is substituted with the following table:-

Chief Regional Planner

1.	Name of Post	Chief Regional Planner
2.	Number of Posts	One
3.	Classification	Group 'A'

4.	Scale of Pay	Rs.37,400-67,000: PB-4 plus grade pay Rs.8,900
5.	Whether Selection post or non-Selection post	Not applicable
6.	Age limit for direct recruits	Not applicable
7.	Educational and other qualification required, for direct recruits.	Not applicable
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable
9.	Period of Probation, if any.	Not applicable
10.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	Composite method - deputation (including short term contract) / promotion.
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grade from which promotion/ deputation/ absorption is to be made.	<p>Deputation:</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Govts. or Public Sector Undertaking or semi-Government or Autonomous or Statutory organizations –</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department, or</p> <p>(ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band of Rs. 37400-67000 with Grade pay of Rs. 8700; or</p> <p>(iii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band of Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs.7600; and</p> <p>(b) Possessing the following educational qualifications, namely:-</p> <p>Essential:</p> <p>(i) B. Arch/ B.E. (Civil)/ Bachelor of Planning/ M.A. (Geography) and Post Graduate Degree in Urban/ Regional Planning.</p> <p>(ii) 15 years' experience in the field of town and regional planning in a local body or in a Government/ Govt. undertaking or in a recognized institution, out of which at least 5 years in preparation and implementation of urban/regional/town & country planning and execution and monitoring of infrastructure projects.</p>

		<p>Period:</p> <p>Period of deputation will be initially for three years extendable by two years on a year to year basis on the basis of performance assessment.</p> <p>Promotion:</p> <p>Joint Director (Tech) having 6 years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band of Rs.15600-39100 with Grade Pay Rs.7600.</p> <p><i>Note 1. A departmental candidate in the feeder grade of Joint Director (Technical) in the pay band of Rs.15,600-39,100 with Grade Pay of Rs.7,600 with six years' regular service in the grade shall also be eligible to be considered for this post along with the outsiders and in case he is selected, his appointment shall be deemed to have been made by promotion.</i></p> <p><i>Note 2. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall not exceed initially for five years.</i></p> <p><i>Note 3. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years, as on the closing date of the receipt of applications.</i></p>
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Selection by Personnel Group and appointment to be made after approval by the Chairman of the Board. The composition of the Personnel Group shall be as per the NCRPB Notification No.K-14011/13/85-NCRPB, dated 8.7.1985.
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	Not applicable

B. K. TRIPATHI, Member Secy.
[ADVT. III/4/Ext'y./195 (125)]